

# प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक – 01.08.2022

## हत्या के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार। (थाना जेठवारा)

दिनांक 19.07.2022 को थाना जेठवारा पर आवेदक सुरेन्द्र कुमार सरोज पुत्र राजेन्द्र सरोज द्वारा यह सूचना दी गई कि दिनांक 18.07.2022 की रात्रि में सुजीत कुमार सरोज आदि 06 लोगों द्वारा उनका रास्ता बंद कर दिया गया व विवाद करने लगे मना करने पर विपक्षियों द्वारा उनसे व उनके परिजनों से मारपीट की गई एवं उनके पिता के सिर पर गम्भीर प्रहार कर घायल कर दिया गया, जिन्हे उपचार हेतु जिला अस्पताल प्रतापगढ़ ले गये थे वहां से उन्हे प्रयागराज रेफर कर दिया गया था जहां उनकी मृत्यु हो गई है। घटना के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जेठवारा पर मु0अ0सं0 193/2022 धारा 147, 302, 323, 504, 506 भादंवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु संबंधित को दिये गये कड़े निर्देशों के क्रम में दिनांक 22.07.2022 को उक्त अभियोग से संबंधित 03 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक जेठवारा श्री आदित्य कुमार सिंह मय टीम द्वारा अभियोग में वांछित एक और अभियुक्त इन्द्रकुमार सरोज पुत्र रामकिशोर सरोज को थाना क्षेत्र जेठवारा के सरायआनादेव, तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

## गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. इन्द्रकुमार सरोज पुत्र रामकिशोर सरोज निवासी ग्राम महाराजगंज, अमरौना थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।

**पुलिस टीम-** प्रभारी निरीक्षक श्री आदित्य कुमार सिंह, उ0नि0 श्री शेषनाथ सिंह, उ0नि0 सुमित सिंह, हे0कां0 कमालुद्दीन, कां0 कृष्णकान्त व कां0 अनुराग शुक्ला थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।

## 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार (थाना रानीगंज)

जनपद के थाना रानीगंज के व0उ0नि0 श्री योगेश चतुर्वेदी मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र / तलाश, वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 133/2022 धारा 493, 506 भादंवि से संबंधित एक वांछित अभियुक्त प्रवीण कुमार पटेल पुत्र कमलेश प्रसाद पटेल निवासी ग्राम अवधानपुर थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्र के जामताली तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।